

ICRA Limited

June 29, 2024

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street

Mumbai 400 001, India

Scrip Code: 532835

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block

Bandra-Kurla Complex

Bandra (East)

Mumbai - 400 051, India

Symbol: ICRA

Dear Sir/Madam,

Sub.:- Newspaper Publication - Notice of Thirty-third Annual General Meeting and information on Electronic voting

Pursuant to Regulation 30 and other applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, (the "Listing Regulations"), please find enclosed notice of the Thirty-third Annual General Meeting of ICRA Limited (the "Company") scheduled to be held on Tuesday, July 23, 2024 at 3:00 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") and information on electronic voting published in the following newspapers on June 29, 2024:

- 1. Financial Express
- 2. Jansatta

This information will also be hosted on the Company's website, viz., https://www.icra.in/

You are requested to take the above on record.

Regards,

Sincerely,

(S. Shakeb Rahman) Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

Building No. 8, 2nd Floor, Tower A DLF Cyber City, Phase II Gurugram - 122002, Haryana

Tel.: +91.124.4545300 CIN: L74999DL1991PLC042749 Website : www.icra.in : info@icraindia.com Email

Helpdesk: +91.9354738909 Registered Office: B - 710, Statesman House, 148, Barakhamba Road, New Delhi - 110001. Tel.: +91.11.23357940-41

INFORMATION

CIN: L25209WB1997PLC085972

Registered Office: Barjora Mejia Road, P.O. Ghutgoria,

Tehsil: Barjora, Dist. Bankura, West Bengal 722 202 Tel.: 91-9775301701, Email: cosec@xproindia.com; Website: www.xproindia.com

NOTICE is hereby given that the TWENTY SEVENTH Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visua Means (OAVM) on Monday, July 29, 2024 at 10.30 A.M. (IST) to transact the Business set out in the Notice of the 27th AGM dated May 28, 2024.

The Notice convening the 27th AGM and Annual Report for the year 2023-24 in electronic mode

xproindia

have been sent to all the members whose e-mail ids are registered with Depository Participant(s)/ Company/ Registrar and Share Transfer Agent of the Company viz. Link Intime India Private Limited ("Link Intime") in conformity with the regulatory requirements. The date of completion of dispatch of the Notices in permitted mode(s) is June 28, 2024. The Annual Report for the year 2023-24 and the Notice of 27th AGM are also available on the Company's website www.xproindia.com, on the website of the Stock Exchanges at www.nseindia.com & www.bseindia.com and the website of Link Intime at https://instavote.linkintime.co.in/. The Company has provided its Members the facility to cast their vote electronically on all the Resolutions set out in the Notice through remote e-voting (facility to cast vote prior to the AGM) and also e-voting during the AGM, for which purpose services of Link Intime have been engaged by the Company. The remote e-voting period commences on Friday, July 26, 2024 from 9.00 A.M. (IST) and ends on Sunday, July 28, 2024 at 5.00 P.M. (IST) after which the voting portal will be disabled by the Link Intime and no voting shall be allowed. In case of any queries regarding login/ e-voting, you may send an email to a request at enotices@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022 - 4918 6000

A member may participate in the AGM through VC/OAVM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. A Member who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and has not cast his/her vote on the Resolutions through remote e-voting and is otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting during the AGM.

The detailed procedure for remote e-voting, e-voting during the time of AGM and participation in the AGM through VC/OAVM is provided in the Notice of the 27th AGM. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by our RTA as on the cut-off date, i.e., Monday, July 22, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting during the AGM.

Members are requested to carefully read the notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or voting at the AGM. NOTICE of Book Closure for the purpose of Dividend & Annual General Meeting

The Board of Directors at their Meeting held on May 28, 2024 recommended a Dividend of Rs. 2.00 per Equity Share of Rs. 10/- each for the financial year ended March 31, 2024, subject to the approval of shareholders of the Company

Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company wil remain closed from July 23, 2024 to July 29, 2024 (both days inclusive) for the purpose of the 27th AGM and also for determining the eligibility for payment of Dividend, if approved by the shareholders at the AGM. The Dividend will be paid within 30 days from the conclusion of the AGM, to the shareholders

In this regard, pursuant to Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements

whose names appear on the Company's Register of Members or in the records of the Depositories as Beneficial Owners, as at the end of business hours on Monday, July 22, 2024 i.e. the date prior to the commencement of book closure. Payment of Dividend shall be made through electronic mode to the shareholders who have

registered their bank account details with the Company/Depositories. Shareholders are informed that in terms of the provisions of the Finance Act 2020, dividend paid or distributed on or after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of the Shareholder and such payment of Dividend will be subject to deduction of tax at source at applicable rates. By order of the Board

Place : Kolkata Kamal Kishor Sewoda Dated: June 28, 2024

Company Secretary

DUNCAN ENGINEERING LIMITED CIN: L28991PN1961PLC139151

Regd Office: F-33 Ranjangaon MIDC Karegaon, Tal Shirur, Pune-412 209 Tel: + 91-2138-660066, Fax: + 91-2138-660067

Website: www.duncanengg.com, E-mail: complianceofficer@duncanengg.com

NOTICE OF 63RD ANNUAL GENERAL MEETING. E-VOTING AND BOOK CLOSURE DATES

Notice is hereby given that 63rd Annual General Meeting (AGM) of Duncan Engineering Limited ('the Company') will be held on Monday, the 22nd day of July 2024 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio-Visual Means ('OAVM') facility, in compliance of provisions of the Companies Act. 2013 ('the Act') and Rules thereof read with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020 20/2020 dated May 5, 2020, 10/2022 dated December 28, 2022 & 09/2023 dated September 25, 2023 (hereinafter referred to as "MCA Circulars") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the SEBI Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, SEBI/HO/CFD/ PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 & SEBI/HO/CFD/CFD-PoD 2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 (hereinafter referred to as "SEB Circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM.

Notice is further given that, pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act. 2013. Rules thereof and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, including the amendments thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 16th July 2024 to Monday, 22nd July 2024 (both days inclusive) for the purpose of declaration of dividend and AGM. The dividend, if declared, at the AGM will be paid to Members subject to deduction of Tax at source (TDS), as applicable:

- a. whose names appear as Beneficial Owners as at the end of the business hours on 15th July 2024 in the list of Beneficial Owners to be furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited in respect of equity shares held in electronic form; and
- b. whose names appear as Members in the Register of Members of the Company as at the end of the business hours on 15th July 2024.

In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of AGM along with the Statement annexed to the Notice pursuant to section 102 of the Companies Act, 2013 and Rules thereof including amendments thereunder and the Annual Report of the Company for the financial year 2023-24 have been sent to the Members only electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company / the Depository Participants (DPs) / the Register and Share Transfer Agent (R & T Agent), as the case may be. The aforesaid documents are also available on the website of the Company viz. www.duncanengg.com, Stock Exchange viz. BSE Limited at www.bseindia.com and R & T Agent viz. www.linkintime.co.in.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and as amended from time to time, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India including amendments thereunder, the Company is providing the facility to its members holding shares as on 15th July 2024, being cut-off date, to exercise their right to vote on all resolutions set forth in the Notice of AGM The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ('remote e-voting') or by e-voting at the AGM. The Company has engaged Link Intime India Private Limited ('Link Intime') to provide remote e-voting facility through its platform "INSTAVOTE" The details of remote e-voting are as under:

- Date of completion of sending Notice of AGM along with Annual Report.
- The remote e-voting period commences on Friday, 19th July 2024 (9.00 a.m. IST) and ends on Sunday, 21st July 2024 (5.00 p.m. IST).
- The voting through remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 21st July 2024.
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Monday, 15th July 2024, may obtain User-Id and Password by sending a request at pune@linkintime.co.in or complianceofficer@duncanengg.com
- The members attending the AGM through VC/OAVM facility, who have not casted their vote by Remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM through e-voting.
- 6. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through Remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the
- A person whose name is recorded in the Register of Members or Registe. of the Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date i.e. Monday, 15th July 2024 shall be entitled to avail the facility of either remote e-voting or e-voting at the AGM.
- The procedure of electronic voting and attending the AGM through VC/OAVM is available in the Notice of AGM.

The manner of registration of e-mail addresses of those Members whose email addresses are not registered with the Company/the R&T Agent/DP is available in the Notice of AGM. The Notice of AGM is available on the Company's website www.duncanengg.com and on the website of the Stock Exchanges on which the Company's shares are listed viz. BSE Limited www.bseindia.com

M/s Vaishnav Associates, Practicing Company Secretary, Pune (C P No.: 11392 Membership No. ACS 8675) has been appointed as scrutinizer to scrutinize the e-voting process and casting of votes through e-voting during AGM in a fair and transparent manner. The e-voting results and Scrutinizer's report shall be placed on the website of the Company, i.e. www.duncanengg.com immediately after declaration of results and shall be forwarded to the Stock Exchange where shares of the Company are listed.

Pursuant to SEBI Circular dated 10.06.2024, shareholders holding physical securities shall be eligible for receipt of any payment including dividend as well as to lodge grievance or avail any service request from the RTA even if 'choice of nomination' is not submitted by these shareholders. All new shareholders shall continue to be required to mandatorily provide the 'Choice of Nomination' for demat accounts (except for jointly held Demat Accounts). All existing shareholders are encouraged to provide 'choice of nomination' Necessary formats for the same are available on Company's website www.duncanengg.com.

In case of any gueries, you may refer Frequently Asked Questions (FAQs) and Instavote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in under Help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or call at Tel: +91 20- 46014473. The Members can also write to the Company Secretary at complianceofficer@duncanengg.com.

Place : Pune

Date: 28th June, 2024

By the Order of the Board of Directors For Duncan Engineering Limited

Sayalee Yengul Company Secretary (Mem No A37267)



Utkarsh Small Finance Bank

Aapki Ummeed Ka Khaata

(A Scheduled Commercial Bank)

CIN: U65992UP2016PLC082804 (The Bank is yet to receive approval from the Registrar of Companies for the change of CIN)

UTKARSH SMALL FINANCE BANK LIMITED

Registered Office: Utkarsh Tower, NH - 31 (Airport Road), Sehmalpur, Kazi Sarai, Harhua, Varanasi, Uttar Pradesh, PIN - 221105. Tel. No.: +91-542-6605555 | Email: shareholders@utkarsh.bank Website: www.utkarsh.bank

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE EIGHTH (8TH) ANNUAL GENERAL MEETING OF THE MEMBERS OF UTKARSH SMALL FINANCE BANK LIMITED ("USFBL" OR "THE BANK") IS SCHEDULED TO BE HELD ON MONDAY, JULY 22, 2024 AT 2.00 PM (IST) THROUGH VIDEO CONFRENCING (VC) / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM")

2023 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI Circular No.SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 read alongwith various circulars issued by MCA as also by SEBI from time to time. the Eight (8th) Annual General Meeting ("AGM") of the Bank will be conducted through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") facility on Monday, July 22, 2024 at 2.00 PM (IST) to transact the business that will be set forth in the Notice calling the AGM. 2. In compliance with circulars, the Bank has electronically dispatched the

In compliance with the recent Circular No.09/2023 dated September 25.

- copies of Notice of AGM and the Integrated Annual Report for FY 23-24 to all the members whose email IDs are registered with the Bank/Depository Participant.
- The businesses as set forth in the Notice of AGM will be transacted through remote e-voting or e-voting during the AGM.
- The remote e-voting period commences on Friday, July 19, 2024 at 9:00 A.M. IST and ends on Sunday, July 21, 2024 at 5:00 P.M. IST. During this period, Members holding shares as on voting cut-off date, i.e., July 15, 2024, may cast their vote electronically. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. However, the Bank has also made arrangements for e-voting during the AGM.
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the voting cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting in the general meeting.
- 6. Any person, who acquires shares of the Bank and becomes member of the Bank as on voting cut-off date after the dispatch of the notice may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com or shareholders@utkarsh.bank However, if a person is already registered with National Securities Depository Limited (NSDL) for e-voting then existing login ID and password can be used for casting vote.
- The facility for joining the meeting shall be kept open at least 15 minutes before the meeting and shall not be closed till the expiry of 15 minutes after
- A member may participate in the annual general meeting even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting
- The Notice of Eight (8th) AGM and the Annual Report for FY 23-24 is also available on the Bank's website www.utkarsh.bank websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of 'NSDL https://www.evoting.nsdl.com

Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at 022 - 4886 7000.

> For Utkarsh Small Finance Bank Limited Date: 28.06.2024

Date: June 29, 2024 Place: Mumbai

Muthiah Ganapathy Company Secretary & Compliance Officer Membership No.- 5674

XCHANGING SOLUTIONS LIMITED

(a DXC Technology Company) CIN: L72200KA2002PLC030072

Registered Office: HP Avenue, 39/40, Electronic City, Hosur Main Road, Bengaluru 560 100, Karnataka, India **Tel:** +91 - 80 - 6972 9602

Email: xchangingcompliance@dxc.com Website: www.dxc.com URL: https://dxc.com/in/en/about-us/xchanging-olutions-limited-investor-relations NOTICE OF THE 23RD ANNUAL GENERAL **MEETING AND E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given that the 23rd Annual General Meeting ("**AGM**") of the Members of Xchanging Solutions Limited ("XSL"/ "the Company") will be held on Wednesday, July 24, 2024 at 10:00 A.M (IST) through Video Conferencing **"VC"**) / Other Audio Visual Means ("**OAVM"**) to transact the businesses, as set out in the Notice of the AGM.

The Notice of the AGM and the Annual Report, including the Standalone and Consolidated Audited Financial Statements, for the Financial Year 2023-24 has been sent only by electronic mode to those members, whose e-mail addresses are registered with the Company / Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") Depositories in accordance with the relevant Circular(s) issued by the Ministry o Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 will also be available on the Company's Website at https://www.dxc.com/in/en/about-us/xchanging-solutions-limited-investor-relations vebsites of the stock exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited and BSE imited at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and website of KFin Technologies Limited ("KFin Technologies") at https://evoting.kfintech.com. The dispatch of the Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year ended March 31, 2024 has been completed on Friday, June 28, 2024.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the Cut-off date i.e. Wednesday. July 17, 2024, may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through the Electronic Voting System ("Remote e-Voting 'e-Voting") provided by KFin Technologies. The Members are informed that:

i.The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means; ii.The Remote e-Voting shall commence on Sunday, July 21, 2024 (9:00

A.M. IST) and ends on Tuesday, July 23, 2024 (5:00 P.M. IST). Remote Evoting module will be disabled thereafter;

- iii. The Cut-off date for determining the eligibility to vote by Remote e-Voting
- or by e-Voting system at the AGM shall be Wednesday, July 17, 2024; iv. Any person who acquired shares of the Company and become a member of the Company after the dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as of the Cut-off date i.e. Wednesday, July 17, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@kfintech.com However, if the person is already registered with KFin Technologies for e-

voting, then the existing user ID and password can be used for casting their

- v.Members may note that: (a) The Remote e-Voting module will be disabled by KFin Technologies, beyond 5:00 P.M. (IST) on Tuesday, July 23, 2024 and once the votes on resolution is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently; (b) The facility for e-Voting will also be made available during the AGM and those members present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote on the resolutions through Remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-Voting at the AGM; (c) The members who have cast their vote by Remote e-Voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; (d) Only persons whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the Cut-off date shall be entitled to avail the facility of Remote e-Voting or e-Voting at the AGM; and (e) Members attending the AGM through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013;
- vi. The instructions for joining the AGM and detailed procedure for Remote e-Voting / e-Voting for the members holding shares in dematerialized mode. physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM;
- vii. Members whose email ids are already registered with the Company / RTA/ Depository Participant ('DP'), may follow the instructions for remote e-Voting as well as e-Voting at AGM as provided in the AGM Notice. Members holding the shares in physical and demat form who have not registered their e-mail addresses with the Company/ RTA or with the respective DPs can temporarily get their email IDs registered with the RTA by accessing the link: https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx and follow the temporary registration process as guided thereafter, to receive the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2023-24 through email and/ or receiving instructions for Remote e-Voting and instructions for participation in the AGM through VC/ OAVM; and
- ('FAQs') for the Members and 'Remote e-Voting User Manual' for Members available at downloads section of https://evoting.fintech.com or call on toll free no.: 1800 309 4001. In case of any queries or grievances relating to e-voting, the Members may contact Mr. Anandan K, Manager at KFin Technologies Private Limited, Selenium Building, Tower B. Plot 31& 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi, Telangana – 500 032 at email id evoting@kfintech.com or call KFin Technologies's toll free No.: 1800 309 4001.

viii. In case of any gueries, you may refer the Frequently Asked Questions

Date: June 28, 2024 Place: Delhi

For Xchanging Solutions Limited

Mayank Jain Company Secretary Membership No: A26620



Regd. Office: 605-607, Shrikant Chambers, Phase-I, 6th Floor, Adj. to R. K. Studios, Sion-Trombay Road, Mumbai-400071. CIN: L45400MH2012PLC234318; Telephone: +91 (22) 7173 3717; Facsimile: +91 (22) 7173 3733; Email: compliance@capacite.in; Website: www.capacite.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE is hereby given that pursuant to Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, ('the Act') (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulations 44 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations') and the Secretarial Standard - 2 on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India, each as amended, and in accordance with the requirements prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, June 15, 2020, September 28, 2020 December 31, 2020, June 23, 2021, December 8, 2021, May 5, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 (collectively referred to as 'MCA Circulars'), approval of members is hereby sought by passing Special Resolutions through electronic means (remote e-voting) for the resolution as appended below: a) Appointment of Mr. Kartik Jayantilal Rawal (DIN: 00436076) as a Non-

Executive Independent Director of the Company

b) Re-appointment of Mr. Rohit Ramnath Katyal (DIN: 00252944) as a Whole Time Director of the Company

The Company has completed the process of sending Postal Ballot Notice electronically

only to those Members whose names appeared in the Register of Members/List of Beneficial Owners as received from KFin Technologies Limited, the Company's Registrar and Transfer Agent ('RTA') / Depositories as on Friday, June 21, 2024 ('Cut-Off date'). Members of the Company are hereby informed and requested to note the following:

- The Company has engaged the services of NSDL to provide a remote e-voting. facility to its Members and the communication of assent or dissent of the
- Members would only take place through the remote e-voting system. 2. The remote e-voting period commences on Sunday, June 30, 2024 at 9:00 a.m. (IST) and shall end on Monday, July 29, 2024, at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. Once a vote
- on a resolution is cast, the Member will not be able to change it subsequently. 3. Only those Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the List of Beneficial Owners as on the Cut-off date will be entitled to cast their votes by remote e-voting
- 4. Those members who have not yet registered their email addresses and consequently, have not received the Notice, are requested to get their email addresses and mobile numbers registered by following the guidelines
- Members holding shares in physical mode: by submitting the requisite Form ISR-1 along with the supporting documents with Registrar & Share Transfer Agent ('RTA') of the Company viz. KFin Technologies Limited. Form ISR-1 can be downloaded at https://karisma.kfintech.com/ downloads/2Form ISR-1.pdf.
- · Members holding shares in dematerialized form are requested to register. update their e-mail addresses with their respective Dps. In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for

Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll-free no.: 022 - 4886 7000 or send a request at evoting@nsdl.com. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Shreyans Jain (Membership

No. FCS 8519, CP No. 9801) of Shreyans Jain & Co., Practising Company Secretaries, as the Scrutiniser to scrutinize the remote e-voting process fairly and transparently. The Notice of Postal Ballot ('Notice') is available on the website of the Company a www.capacite.in and on the websites of the Stock Exchanges viz. BSE Limited ('BSE' and The National Stock Exchange of India Limited ('NSE') at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. A copy of the same is also available on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com.

> For Capacit'e Infraprojects Limited Rahul Kapur Company Secretary ACS52093



Place: Mumbai

ICRA Limited Corporate Identity Number (CIN): L74999DL1991PLC042749

Registered Office: B-710, Statesman House, 148, Barakhamba Road, New Delhi 110001 Telephone No.: +91-11-23357940 Website: www.icra.in; Email ID: investors@icraindia.com

NOTICE OF THE THIRTY THIRD ANNUAL GENERAL MEETING AND ELECTRONIC VOTING INFORMATION

- Notice is hereby given that the Thirty Third Annual General Meeting ("AGM") of the Members of ICRA Limited (the "Company") will be held on Tuesday, July 23, 2024, at 3:00 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and the rules made there under and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, January 13, 2021 December 8, 2021, December 14, 2021, May 5, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 (collectively referred to as "MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") circulars dated May 12, 2020 January 15, 2021, May 13, 2022 and January 5, 2023 (collectively referred as "SEBI Circulars"), to transact the businesses as contained in the Notice convening the AGM ("AGM Notice").
- In compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars, the AGM Notice along with the Annual Report for the financial year ended 2023-24 has been sent on June 28, 2024 through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited (together referred to as "Depositories") or with the Company or with Link Intime India Private Limited, the registrar and share transfer agent of the Company (the 'RTA") Members may note that the AGM Notice and Annual Report for the financial year 2023-24 are also available on the Company's website viz. www.icra.in. as well as on the websites of the stock exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com). The AGM Notice will also be disseminated on the website
- The Company has engaged the services of NSDL to provide with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL electronic voting ("E-voting") system. Members may access the same at https://www.evoting.nsdl.com under shareholders/members login by using the remote E-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the E-voting event number ("EVEN") of the Company will be displayed.
- Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as at close of business hours on Tuesday, July 16, 2024 ('cut-off date'), may cast their vote electronically on the businesses as set forth in the AGM Notice through E-voting system of NSDL. All members are informed that:
- (a) the businesses as set forth in the AGM Notice may be transacted through E-voting or remote E-voting:
- (b) the remote E-voting shall commence on Saturday, July 20, 2024 (9:00 a.m. IST) and ends on Monday, July 22, 2024 (5:00 p.m. IST). The remote E-voting shall not be allowed beyond 5:00 pm on Monday, July 22, 2024; Further, once the vote on a resolution is cast by the member, he shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again;
- (c) Members who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the resolutions through remote E-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through E-voting
- (d) Any person who acquires shares of the Company and become a Member of the Company after dispatch of the AGM Notice and holding shares of the Company as on cut-off date may obtain a login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com or delhi@linkintime.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for E-voting then the existing user ID and password can be used for casting the vote;
- (e) In terms of the SEBI circular on E-voting facility provided by listed companies, individual members holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with the Depositories and depository participants. Members are advised to update their mobile number and email address in their demat accounts in order to access (f) Members who have voted through remote E-voting will be eligible to
- attend the AGM. However, they will not be eligible to cast their vote again (g) AGM Notice is also available on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. In case of any queries, Members may refer the Frequently Asked Questions
- and E-voting user manual for Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.com. Helpdesk for individual members holding securities in dematerialized form for any technical issues related to login through the Depositories. Helpdesk details Login type

Securities held

with NSDL

E-voting at the AGM.

Place : Gurugram

financialexp.epapr.in

Date : June 28, 2024

	The street of the Property of the	
	Securities held with CDSL	Please contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindla.com or contact at toll free
	2012/01/05/05/02	no. 1800 22 55 33
		ng vote through remote E-voting or E-voting at the AGM
10000		AGM Notice. The Members are requested to carefully at out in the AGM Notice and in particular, instructions

for joining the AGM, manner of casting vote through remote E-voting or

For ICRA Limited (S. Shakeb Rahman) Company Secretary & Compliance Officer

By Order of the Board of Directors

Please contact NSDL helpdesk by sending a request at

evoting@nsdl.com or call at 022 - 4886 7000



TATA POWER

(Corporate Contracts Department) The Tata Power Company Limited, 2" Floor, Sahar Receiving Station Sahar Airport Road, Andheri East, Mumbai-400059 (Board Line: 022-67173188) CIN: L28920MH1919PLC000567

NOTICE INVITING TENDER (NIT) The Tata Power Company Limited invites tenders from eligible vendors for the

following tender package (Two Part Bidding) RFQ for Office LTSC Standard 2021 - Perpetual (Package Ref: CC25SAS017) For detailed NIT, please visit Tender section on website https://www.tatapower.com

Interested and eligible bidders to submit Tender Fee, Authorization Letter and Bid Documents before Friday, 19" July 2024, 15:00 Hrs Future corrigendum's (if any), to the above tenders will be published on Tender section

on website https://www.tatapower.com only.



TESTING, COMMISSIONING (SITC) & INTEGRATION OF HYBRID SELF BAG DROPS (SBDs) AT CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ INTERNATIONAL AIRPORT, MUMBAI Mumbai International Airport Limited (MIAL), the concessionaire of

EXPRESSION OF INTEREST FOR SUPPLY, INSTALLATION,

of interest in providing Supply, Installation, Testing, Commissioning (SITC) & Integration of Hybrid SBDs with all the relevant MIAL. Interested parties are requested to visit the website, www.csmia.adaniairports.com and obtain the EOI documents. EOI shall be available for download from 29th June 2024 till 5:00 pm

CSMIA, Mumbai is inviting interested parties to submit their expression

NELCAST 2

IST on 611 July 2024.

CIN: L27109AP1982PLC003518 Regd. Office: 34, Industrial Estate, Gudur - 524 101. Tel: 08624 - 251266. Fax: 08624 - 252066. Website: www.nelcast.com Email: nelcast@nelcast.com

NOTICE OF 42nd ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Forty Second Annual General Meeting (AGM) of the Members of Nelcast Limited will be held on Thursday, the 25th July 2024 at 3.30 PM through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM).

In view of the COVID-19 pandemic the Annual General Meeting of the

Company will be held through VC/OVAM in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 (SEBI LODR), read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, General Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021 and General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022, General Circular No. 11/2022 dated 28th December 2022, 09/2023 dated 25th September 2023 and other applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the Security Exchange Board of India (SEBI) (collectively referred to as "relevant circulars") to transact the business set out in the Notice of 42nd AGM. Accordingly, the AGM will be convened through VC/OAVM and the business may be transacted through voting by electronic means in compliance with applicable provisions of the Act read with applicable circulars. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. (Thursday) 18th July 2024 only shall be entitled to avail the facility of 'remote e-voting' or voting at the AGM. The Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means i.e. remote e-voting and voting on the date of the AGM. For detailed instructions on attending the AGM through VC/OAVM, members / shareholders are requested to go through the Notice of AGM.

In compliance with the relevant circulars, the Annual Report for the year 2023-24 and Notice of the 42nd AGM are being sent in electronic mode to Members whose e-mail address is registered with the Company Registrar and Transfer Agents or with the Depository Participant(s). The above documents are also being made available on the website of the Company at www.nelcast.com, the websites of BSE Limited at www.bseindia.com National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and NSDL website at www.evoting.nsdl.com. The Company has completed dispatch of Notice and Annual Report through email on 28th June 2024.

The Members are hereby informed that:

- The ordinary and special business as set out in the Notice of AGM
- shall be transacted through remote e-Voting or e-Voting at the AGM. (ii) The 'remote e-voting' period commences on (Sunday) 21st July 2024 at 9.00 A.M (IST) and ends on (Wednesday) 24th July 2024 at 5.00 P.M (IST). Member may note that remote e-voting shall not
- be allowed beyond the above said period. (iii) During this period, existing members and persons who have acquired shares and become members of the company after the despatch of notice, holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date (Thursday) 18th July 2024 may cast their vote electronically on the business set forth in the notice of the AGM through NSDL e-voting system in the manner detailed in the AGM Notice.
- (iv) Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. (v) The Company has notified closure of Register of Members and
- Share Transfer Books from Friday, 19th July 2024 to Thursday, 25th July 2024 (both days inclusive). (vi) Members may access the NSDL e-voting system at the weblink: www.evoting.nsdl.com under shareholders/members login. The

same link is valid for joining the AGM on the meeting day. The

- detailed instructions for the remote evoting process, joining the AGM and e-voting during the AGM are given in the Notice of the AGM. (vii) Members are permitted to join the AGM through VC/OAVM, 15 minutes before the scheduled time of commencement of the meeting and upto 15 minutes after such scheduled time.
- (viii) Those members whose e-mail ids are not registered with the depositories for obtaining login credentials for e-voting are requested to send required details and documents as described in the AGM Notice to evoting@nsdl.com or contact our Registrar & Share transfer agents.
- (ix) The documents referred to in the AGM notice are available for inspection. Members may write to the Company's e-mail id nelcast@nelcast.com
- (x) Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of the Members w.e.f. 1st April 2020. For the prescribed rates of various categories, the shareholders are requested to refer the Finance Act, 2020 and amendments thereof.

The Company is required to deduct tax at source from the dividend paid at the prescribed rates, if the dividend amount exceeds Rs.5,000/- in a financial year. However, no tax shall be deducted on the dividend payable to a resident individual, in cases where the members provide Form 15G/Form 15H (applicable to individuals aged 60 years or more) subject to conditions specified in the Income Tax Act, 1961. Form 15G/15H can be downloaded from our RTA's website www.bigshareonline.com to avail the benefit and email the duly filled in forms to tds@bigshareonline.com by 11.59 PM IST on 18th July 2024.

- (xi) Mr. P.R. Lakshmi Narayanan, Practicing Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the 'remote e-voting' process and voting at the AGM, in a fair and transparent manner.
- (xii) The Results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company at www.nelcast.com and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him. The results shall also be immediately forwarded to BSE Limited, Mumbai and The National Stock Exchange of India Limited, Mumbai For any query/ clarification or issues regarding remote e-voting / e-voting during the AGM, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com, or can contact

NSDL help desk by sending a request at evoting@nsdl.com or call

Ms. Pallavi M. - Sr. Manager at 022 - 4886 7000.

By order of the Board For NELCAST LTD.

(S.K. SIVAKUMAR) Company Secretary.

Date : 29th June, 2024 New Delhi

Place: Gudur

सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम, 2002") की धारा 13(2) के तहत अधिसूचना।

सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत एक हाउसिंग फाइनेंस बैंक . पनी है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के तहत निगमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय वर्तमान द्वितीय तल, ब्लॉक–ई, हर्ष भवन, मिडिल सर्कल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 (पहले आरडी चौंबर्स 16ध11, आर समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005) में है और जिसका सीआईएनः U67190DL2014PLC272457 भी इसके द्वारा आपको वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 13 (2) के तहत निम्नलिखित नोटिस भेजते हैं, जिसकी विषय–वस्तू को तदनुसार नोट किया जा सकता है।

उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता का नाम और पताः 1. सीता देवी पत्नी मोहन लाल, 2. मोहन लाल पुत्र टेक चंद, दोनों रहते हैं: बदनपुरी 481, यमुना नगर, हरियाणा—135002, साथ ही रहते हैं: एच. नंबर 1बी बदनपुरी, जगाधरी, जिला, यमुना नगर, 3. कपिल पुत्र मोहन लाल, बदनपुरी (481), यमुना नगर,

ऋण खाता संख्याः LNYAM02522&230009823 ऋण राशिः रु. 3.12.000 / — दिनांक 03.08.202 सरफेसी अधिनियम, 2002 **नोटिस की तिथि** — 22.05.2024 **एनपीए तिथि** — 10.12.2023

मरफेसी 2002 के अनुसार डिमांड नोटिस की तिथि और राशिः 07.05.2024 तक रु. 2,12,455/— (दो लाख बारह हजार चार सौ पचपन रुपये मात्र)

बंधक संपत्तियां: आवासीय भूखंड का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, माप 50 वर्ग गज, आराजी संख्या अ कनाल 1 मरले 6 सरसई, वाका मीजा बदनपुरी हदबस्त संख्या 481, तहसील रादौर, जिला यमुना नगर, नकल जमाबंदी वर्ष 2020—2021 के अनुसार, खेवट संख्या 96, खतौनी संख्या 119, खसरा संख्या 1/25, 2/12, 19, 20, 21, 22/2, पतंग 6 क्षेत्रफल 36 कनाल 11 मरला 50/22113 भाग बकदार 0 कनाल 1 अन्य, दक्षिणः तेजा।

इसके अलावा, कारणों के साथ, हम मानते हैं कि आप मांग नोटिस की सेवा से बच रहे हैं, इसलिए मांग नोटिस का यह प्रकाश गपको इस मांग नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर सप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को उपर पति को आगे के आज, लागल, आक्रमिक खर्च, शुल्क आदि के साथ भूगतान करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने ् सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड धारा 13 (4) के सभी या किसी भी प्रावधान के तहत उधारकर्ता ६ ऋणकर्ताओं की इन नुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा लेने सहित सभी या किसी एक या अधिक सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेगा। इसके अलावा आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या किसी अन्य तरीके से उपरोक्त सुरक्षित नंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि आगे कोई मांग नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी, सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। देनांकः 29.06.2023, स्थानः यमुनानगर

सार्वजनिक सूचना (दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 102 के अनुसार) विदुषी अग्रवाल (आईपी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेंड की निजी गारंटर) के लेनदारों के ध्यानार्थ

	ग्रार	संगिक विवरण
1	व्यक्तिगत गारंटर का नाम	श्रीमति विदुषी अग्रवाल
2	व्यक्तिगत गारंटर का पता	फ्लैट 502, कैलिप्सो टॉवर —2, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, सेक्टर— 128, नोएडा— 201304.
3	व्यक्तिगत गारंटर के संबंध में आदेश और दिवालियापन प्रारंभ तिथि का विवरण	04.06.2024, 26.06.2024 को सूचित किया गया
4	आवेदन स्वीकार करने वाले आदेश का विवरण	याचिका संख्या (आईबी)—266(पीबी) / 2022 आईबीसी, 2016 की धारा 100 के तहत स्वीकार की गई। एनसीएलटी नई दिल्ली प्रमुख पीठ के दिनांक 04.06.2024 के आदेश के माध्यम से।
5	समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने वाले दिवालियापन पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	आईपी मेघा अग्रवाल पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P01456/2018- 2019/12272
6	बोर्ड के पास पंजीकृत समाधान पेशेवर का पता और ई—मेल	पता— 001, शिवरंजिनी अपार्टमेंट, सर्कल ऑफ कांग्रेस नगर गार्डन, कांग्रेस नगर, नागपुर — 440012. ईमेलः ip.meghaagrawal@gmail.com
7	समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पता और ई–मेल	प्लॉट नं.72, अंजनेया निवास, ओप. ड्यू ट्रिनिटी अस्पताल, हिंदुस्तान कॉलोनी, साईं मंदिर के पास, वर्धा रोड, नागपुर 440015

. एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली की प्रधान पीठ ने श्रीमती विदुषी अग्रवाल (आईपी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की व्यक्तिगत गारंटर) की दिवालियेपन प्रक्रिया 04 जून 2024 से शुरू

20/07/2024

श्रीमती विद्षी अग्रवाल के लेनदारों से अनुरोध है कि वे प्रविष्टि संख्या 7 के समक्ष उल्लिखित पते पर 20.07.2024 को या उससे पहले समाधान पेशेवर को अपने दावे प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। लेनदार अपने दावे प्रमाण सहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तथा डाक द्वारा प्रस्तुत करेंगे। दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तत करने पर दंड लगाया जाएगा।

दिनांकः 29.06.2024 स्थानः नागपर

दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

प्रासंगिक प्रपत्र यहां उपलब्ध हैं:

(आईपी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के लिए व्यक्तिगत गारंटर) IBBI/IPA-001/IP-P01456/2018-19/12272 एफए की वैधता — 02.10.2024 ईमेलः ibcpg.irp@gmail.com

आईपी मेघा अग्रवाल

श्रीमती विदुषी अग्रवाल के लिए समाधान पेशेवर

ईमेलः ibcpg.irp@gmail.com

https://www.ibbi.govin/home/downloads

आईबीबीआई के साथ पंजीकृत पताः – 001, शिवरंजिनी अपार्टमेंट, कांग्रेस नगर गार्डन के सर्कल में, कांग्रेस नगर, नागपूर 440012. ईमेलः ip.meghaagrawal@gmail.com



आईसीआरए लिमिटेड

कॉपॅरिट पहचान संख्या (सीआईएन): L74999DL1991PLC042749 पंजीकृत कार्यालय: बी-710, स्टेट्समैन हाउस, 148, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001, टेलीफोन नं.: +91-11-23357940 वेबसाइट: www.icra.in ई-मेल आईडी: investors@icraindia.com

तैतीसवीं वार्षिक आम बैठक और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जानकारी की सूचना एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू.

- प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीयन विनियम") के साथ पठित कॉपॉरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") परिपन्न दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 13 जनवरी, 2021, 8 दिसम्बर, 2021, 14 दिसम्बर, 2021, 5 मई, 2022, 28 दिसम्बर, 2022 एवं 25 सितम्बर, 2023 (संयुक्त रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभृति एवं विनियम बोर्ड ("संबी") परिपन्न दिनांक 12 मईं, 2020, 15 जनवरी, 2021 एवं 13 मई, 2022 (संयुक्त रूप से ''सेबी परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") परिपन्न दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021, 13 मई, 2022 एवं 5 जनवरी, 2023 (संयुक्त रूप से "सेबी परिपन्न" के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में एजीएम के आयोजन की सूचना ("'**एजीएम सूचना")** में निहित व्यवसाय के निष्पादन के लिए आईसीआरए लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की तैतीसवीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") मंगलवार, 23 जुलाई, 2024 को अप. 3.00 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''बीसी'')/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों (''ओएबीएम'') के द्वारा आयोजित
- ्रमसीए परिपत्रों और 'सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, समाप्त वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम सूचना उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 28 जून, 2024 को भेज दी गई है जिनके ई-मेल पते नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") और सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("एक साथ "डिपॉजिटरीज" के रूप में संदर्भित) या कम्पनी या लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट ("'आरटीए") के पास पंजीकृत हैं। एजीएम सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.icra.in के साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट (<u>www.bseindia.com</u> एवं <u>www.nseindia.com</u>) पर भी उपलब्ध है। एजीएम सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित की जाएगी। कम्पनी ने एनएसडीएल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("ई-बोर्टिंग") सिस्टम द्वारा वीसी/ओएवीएम के
- माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने की सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल की सेवाएं ली है। सदस्यगण रिमोट ई-बोटिंग क्रेडेंशियल्स के उपयोग द्वारा शेयरहोल्डर/मैम्बर्स लॉगइन के अंतर्गत https://www.evoting.nsdi.com पर इसे एक्सेस कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरहोल्डर/मैम्बर्स लॉगइन में उपलब्ध होगा जहां कम्पनी का ई-वोटिंग इवेन्ट नम्बर ("'इंबीईएन") प्रदर्शित होगा।
- मंगलवार, 16 जुलाई, 2024 (कट-ऑफ तिथि) की या तो भौतिक प्रारूप या अमूर्त प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण एनएसडीएल के ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं। सभी सदस्यों को
 - सुचित किया जाता है कि: (क) एजीएम सुचना में निर्धारित अनुसार व्यवसाय का निष्पादन ई-वोटिंग या रिमोट ई-वोटिंग
 - के माध्यम से किया जा सकता है। (ख) रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 20 जुलाई, 2024 (प्रात: 9.00 बजे आईएसटी) प्रारंभ होगी और सोमवार, 22 जुलाई, 2024 (सायं 5.00 बजे) समाप्त होगी। सोमवार, 22 जुलाई, 2024 को सायं 5.00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, सदस्य द्वारा एक बार प्रस्ताव पर वोट देने के बाद उसे बाद में बदलने

या दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी।

- (ग) वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से प्रस्ताव पर अपना वोट नहीं दिया है, और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया है, केवल वे ही एजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने के लिए योग्य होंगे।
- (घ) कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अधिगृहित करता है और एजीएम खूबना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि को कम्पनी के शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.com या delhi@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि व्यक्ति पहले से ही ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह वोट देने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
- (ङ) सूचीबद्ध कंपनियाँ द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी परिपत्र के संदर्भ में डिमेट प्रारूप में प्रतिभृतियां धारित करने वाले व्यक्तिगत सदस्यगण को उनके डिपॉजिटरीज एवं डिपॉजिटरी प्रतिभागी द्वारा रखरखाव किये जाने वाले उनके डिमेट खाते के माध्यम से वोट देने की अनुमति है। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने डिमेट खाते में अपना मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी को अपडेट रखें।
- (च) सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे दिया है, वे एजीएम में शामिल होने के लिए योग्य होंगे। तथापि, उन्हें एजीएम में दोबारा बोट देने की अनुमति
- (छ) एजीएम सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdi.com पर भी उपलब्ध है। किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड सैक्शन पर सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या फोन नं. 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पह्नवी महात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल के पास ई-मेल आईडी evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं। अमूर्त प्रारूप में प्रतिभृतियां धारण करने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए डिपॉजिटरी के माध्यम से लॉगइन के संबंध में किसी भी तकनीकी परेशानी के लिए हेल्पडेस्क:

लॉगइन टाइप	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल	कृपया <u>evoting@nsdl.com</u> पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल
के साथ धारित	हेल्पडेस्क पर संपर्क करें या फोन नं. 022 - 4886 7000
प्रतिमूतियां	पर कॉल करें।
सीडीएसएल के	कृपया helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध
साथ धारित	भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क पर संपर्क करें या टोल फ्री नं,
प्रतिमूतियां	1800 22 55 33 पर कॉल करें।

रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने की प्रक्रिया एजीएम सुचना में दी गई है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम सूचना में दिये गये सभी नोट्स और विशेषकर एजीएम में शामिल होने के लिए निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने की प्रक्रिया को भली-भांति पढ लें।

रथानः गुरुग्राम

तिथि : 28 जून, 2024

निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते आईसीआरए लिमिटेड (एस. शाकिब रहमान) कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

AXIS BANK अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री

खुदरा ऋण एवं भुगतान समूह (स्थानीय कार्यालय/शाखा)ः जी-9, महिमा ट्रिनिटी मॉल, 3एफ-24, स्वेज फार्म, ब्यू सांगानेर रोड, जयपुर। एक्सिस बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल, गिगाप्लेक्स, एनपीसी-1, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, मुगलसन रोड, ऐरोली, नवी मुंबई -400708 पंजीकृत कार्यालयः "त्रिशूल", तीसरी मंजिल,समर्थेश्वर मंदिर लॉ गार्डन के सामने,

एलिसब्रिज अहमदाबाद-380006 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री

एतद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणी एवं गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी / चार्ज की गई है, जिसका भौतिक कब्जा सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है। जिसकी बिक्री ऋण संख्या पीएचआर005707195968 में सविता देवी (आवेदक)और जयेश (सह–आवेदक) से देय 24.08.2023 तक रु.1357237 /— बकाया के साथ भविष्य के ब्याज और लागतों की वसूली के लिए 06.08.2024 को "जैसा है जहां है", " जो है जैसा है" और "जो कुछ भी है" पर बेचा जाएगा। कृपया आवश्यक विवरण के लिए संलान नीलामी अनुसनी देखें:

	क लिए सलग्न नालामा अनुसूचा दख.				
	ज्ञात भार (यदि कोई हो):		नहीं		
	आरक्षित मूल्य (रुपये में)	रु. 7,2	. 7,20,000 / – (सात लाख बीस हजार रुपए मात्र)		
ı	धरोहर जमा राशि (रुपये में)ः		5. 72000 / — (बहत्तर हजार रुपए मात्र)'एक्सिस बैंक लिमिटेड' के क्षि में एवं जयपुर में देय डीडी / पीओ के माध्यम से ।		
3 3 3	बोली वृद्धि राशिः	रु. 10,	ह. 10,000 /— (केवल दस हजार रुपये)		
	ईएमडी के साथ बोलियां/निविदा जमा करने की अंतिम तिथि, समय और स्थानः	जी—9,	5.08.2024 तक, अधिकतम सायं 05:00 बजे तक, एक्सिस हाउर नी–9, महिमा ट्रिनिटी मॉल, ३एफ–24, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोव नयपुर, राजस्थान और कृपया श्री नवीन कुमार शर्मा को संबोधित करें		
	पोर्टल		06.08.2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे। इसके वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ। ई—नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा आदि		
	सहित ई-नीलामी निविदा दस्तावेज उ		वैतरण के अनुसार सेता पटाता की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।		

अनुसूची–संपत्ति का विवरणः प्लॉट संख्या 403, खसरा संख्या 42,44, मारवाड़ शहर, पाली राजस्थान, क्षेत्रफल–1200 वर्ग फीट, निम्नानुर

रिबद्ध :— पूर्व— प्लॉट संख्या 404 पश्चिम— प्लॉट संख्या 402 उत्तर— रोड दक्षिण— प्लॉट संख्या 400, बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए,कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी https://www.axisbank.com/auction-retail और बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर दिए गए लिंक को नीलामी, बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से उनके वेब पोर्टर

https://www.bankeauctions.com पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। किसी अन्य सहायता के लिए इच्छुक बोलीदाता श्री नवीन कुमार शर्मा, मोबाइल नं. 9351776625, बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से कार्यालय सम के दौरान सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। दिनांक— 29.06.2024, स्थान—नोएडा हस्ता /- प्राधिकृत अधिकारी, कृते एक्सिस बैंक लिमिटेर

पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड सीआईएन: L27109UP1985PLC006998

पंजीकृत कार्यालयः बी–10, वीआईपी कॉलोनी, सिविल लाइंस, रामपुर–244901, उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेट कार्यालयः 201 और 202, द्वितीय तल, रतन ज्योति बिल्डिंग, 18, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली—110008 फोन—011—47631025, 26, 27;

ई-मेल : compllances@pmcfincorp.com; वेबसाइट: www.pmcfincorp.com 39वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सदस्यों को सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") गुरुवार 25 जुलाई, 2024 को सुबह 11.00 बजे (आईएसटी) ,वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओवीएएम") के माध्यम से एजीएम की सूचना में बताए अनुसार कारोबार का संचालन किया करने के लिए आयोजित की जाएगी, जिसे कंपनी के सदस्यों को

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने 28 दिसंबर, 2022 के अपने परिपत्र संख्या 10/2022 के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020, 21/2021 और 02/2022 दिनांक 5 मई 2020, 14 दिसंबर 2021 और 5 मई 2022 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों, जिनमें सबसे नवीनतम क्रमशः 9/2023 दिनांक 25 सितंबर 2023, ('एमसीए परिपत्र') (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) है, ने वर्ष 2024 में होने वाली वार्षिक आम बैठक ("एजीएम) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो विज्ञल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से, एक नियत स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना बुलाने की अनुमति दी है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों के अनुपालन में उपरोक्त परिपत्रों और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम,2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम) वीसी/ओएवीएम और सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से इस एजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा कंपनी द्वारा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") से उपलब्ध कराई जा रही है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए जाएंगे और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से सदस्य की उपस्थिति की गणना की जाएगी।

२वीं एजीएम सुचना और वित्तीय वर्ष २०२३–२४ के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति, एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी-2 / पी / सीआईआर/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट ("वार्षिक रिपोर्ट") के साथ 39वीं एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनका ईमेल पता कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत है। 39वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2023–24 कंपनी की वेबसाइट www.pmcfincorp.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध

सदस्यों से अपनी ई-मेल आईडी और केवाईसी विवरण पंजीकृत करने की अपील: जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे अपनी ई–मेल आईडी निम्नानुसार पंजीकृत करवाएं:

• •	
दि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हैं	ऐसे शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) यानी इंडस पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपनी ई—मेल आईडी पंजीकृत करवाएं। इसके लिए कंपनी आरटीए को rs.kushwaha@indusinvest.com पर या कंपनी को Investorrelations@pmcfincorp.com पर अनुरोध भेजें।
दि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं	उक्त अनुरोध के साथ केवाईसी अपडेट के लिए फॉर्म आईएसआर —I भी संलग्न करें। ऐसे शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी ई—मेल आईडी संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिमागी(ओं) के साथ पंजीकृत करवाएं।

यदि कोई प्रश्न या पता पंजीकृत करने में कोई कठिनाई हो, तो शेयरधारक आरटीए को rs.kushwaha@indusinvest.com पर या कंपनी को Investorrelations@pmcfincorp.com पर

जिन भौतिक शेयरधारकों ने अभी तक फॉर्म आईएसआर—I, आईएसआर—2, एसएच—13 / एसएच—14 जमा नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे इन्हें यथाशीघ्र आरटीए / कंपनियों को जमा कर दें। जिन शेयरधारकों के पास डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि उपरोक्त केवाईसी विवरण और नामांकन उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपडेट हैं।

रिमोट ई–वोटिंग, एजीएम में ई–वोटिंग और लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने का तरीका कंपनी अपने सभी सदस्यों के लिए 'रिमोट ई—वोटिंग' की सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे कंपनी की 39वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") के नोटिस में उल्लिखित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें और एजीएम के दौरान ई—वोटिंग कर सकें (सामृहिक रूप से "ई—वोटिंग" कहा जाता है)। कंपनी ने अपने सदस्यों को ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की सेवाएं ली हैं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों, डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनके लिए ई-वोटिंग के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए जाएंगे।

जिन शेयरधारकों की ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं, उनसे अनुरोध है कि वे ई—वोटिंग के लिए निर्देशों का पालन करें, जैसा कि एजीएम की सूचना में दिया जाएगा। जिन शेयरधारकों की ईमेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें: ए) यदि शेयर भौतिक मोड में हैं, तो कृपया इंडस पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) को rs.kushwaha@indusinvest.com पर ईमेल द्वारा फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई

प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें। बी) यदि शेयर डीमेट मोड में हैं, तो कृपया डीपीआईडी–सीएलआईडी , नाम, पैन कार्ड / आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति/किसी अन्य पते के प्रमाण का उल्लेख करते हुए अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित प्रति इंडस पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) को rs.kushwaha@indusinvest.com पर ईमेल द्वारा प्रदान करें।

सी) एलिटरेटिवली सदस्य बिंदु (ए) या (बी) में उल्लिखित विवरण को साबित करके उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoing@nsdl.co.in पर ई—मेल अनुरोध भेज सकते हैं। कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक 39वीं वार्षिक आम बैठक के लिए शुक्रवार, 19 जुलाई, 2024 से गुरुवार, 25 जुलाई, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे। निदेशक मंडल के आदेश से

दिनांकः 28 जून, 2024

ऋण खाता

15780798

16397128

29834000

तथा

34385578

तिथि : 29.06.2024

स्थान : उत्तर प्रदेश

सं.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

दुरभाष : +91 44 4564 4000 । फैक्स : +91 44 4564 4022.

के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से)

इसे उनकी सम्बन्धित तिथियों से अनुबन्ध दर के अनुसार प्रभारित किया जायेगा।

कर्जदारों तथा सह-

कर्जदारों के नाम

1. अमीनुद्दीन

अलाउद्दीन

2. शकीला

अमीनुद्दीन

1. विक्रम सिंह

2. हेमा विक्रम सिंह

ऋण का

गृह ऋण

सम्पत्ति के

विरुद्ध ऋण

पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिगटन रोड, चेटपेत, चेन्नई-600031.

(पर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड

सीआईएन : L65110TN2014PLC097792

स्थानः नई दिल्ली

पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड के लिए हस्ताक्षरकर्ता / – (कंपनी सचिव)

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना

निम्नलिखित कर्जदारों ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से) से निम्नलिखित प्रतिभृत ऋण ग्रहण किया। निम्नलिखित कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों के ऋण उनकी सम्बन्धित

सम्पत्तियों के बंधक द्वारा प्रतिभृत हुए हैं। चूंकि वे सम्बन्धित ऋण अनुबंधों के नियम एवं शर्तों का पालन करने में असफल रहे और अनियमित हो गये थे अतः

भा.रि.बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार उनके ऋण एनपीए वर्गीकृत कर दिये गये। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड,

आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से) द्वारा उनकी ओर बकाया राशि जारी की गयी

सम्बन्धित सूचनाओं के अनुसार वर्णित हैं जो निम्नलिखित तालिका में अधिक स्पष्ट रूप से वर्णित हैं तथा कथित राशियों पर भावी ब्याज भी प्रयोज्य होगा और

धारा 13(2) धारा 13(2) के

29.05.2024 11,98,093.59/

29.05.2024 26.43.148.57/

एतद्वारा आपसे सम्बन्धित तिथि से से अनुबन्ध दर पर ब्याज सहित तथा अन्य लागतों, प्रभारों आदि का उपर्युक्त तालिका में प्रदर्शित विवरण के अनुसार इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी **फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से**) को राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसमें असफल रहने पर अधोहस्ताक्षरी सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) तथा धारा

14 के तहत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी

फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से) के बकाया राशि की वसूली के लिए यहां ऊपर उल्लिखित बंधक सम्पत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए बाध्य होगा। पुनः कथित

अधिनियम की धारा 13(13) के तहत आपको विक्रय/पट्टे अथवा अन्य रीति से कथित किसी भी प्रतिभूत आस्ति को हस्तान्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है।

अनुसार बकाया

सूचना तिथि

स्वना

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 ("कोड") के तहत आसानी से वसूली योग्य नहीं संपत्ति 'एनआरआरए') के असाइनमेंट के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के लिए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियमन 37 ए के साथ

ग्लोबल फ्रेग्रेन्सेस प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) सीआईएनः U74120DL2008PTC185964

आम जनता को नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सुचित किया जाता है कि ग्लोबल फ्रेग्रेन्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) ("कॉर्योरेट देनदार") की नीचे उल्लिखित आसानी से वसूली योग्य नहीं संपत्ति एनआरआरए) को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों के तहत इच्छु क असाइनियों को भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियमन 37ए के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। कॉर्पोरेंट देनदार की संपत्ति "जैसा है जहां है और बिना किसी सहारा के आधार पर "साँपी या हस्तांतरित की जाएगी ।

परिशंपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है:— दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 66 के अंतर्गत दायर आईए संख्या 1908 / 2023 और आईए संख्या 4717/2023 के तहत सभी अधिकार, जो माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून

न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित हैं, जिसमें कुल रुपये 22,32,88,026 / — की राशि शामिल है । इच्छुक पक्ष अधिक जानकारी के लिए परिसामपक को ip.globalfragrances@gmail.com

तर हेनल ज्ञाय सकय छ । सनत—सामा । जन्मालाखय छ। गाः —	
ईओआई के आमंत्रण के प्रकाशन की तिथि	29.06.2024
पात्रता दस्तावेज और 50,000 रुपये की ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	14.07.2024
योग्य प्रतिभागियों की घोषणा की तिथि	17.07.2024
निरीक्षण/उचित परिश्रम की अंतिम तिथि	24.07.2024
प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि	29.07.2024
परिसमापक हितधारकों की परामर्श समिति के परामर्श से ब्राप्त प्रस्तावों की समीक्ष प्रक्रिया, नियम और शर्तें आदि की सलाह देगा। परिसमापक को प्राप्त समी या किसी	

अस्वीकार करने का अधिकार है। हस्ता /-अतुल कुमार कंसल परिसमापक, ग्लोबल फ्रेगरेंस प्राइवेट लिमिटेड पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P00035/2016-17/10088 **पंजीकृत पताः** ग्राउंड फ्लोर, 221—ए / 19, ओंकार नगर—बी,

त्रि नगर, उत्तर पश्चिम दिल्ली-110035

संचार पताः इमैक्युलेट रेजोल्युशन प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड यूनिट नंबर 112, पहली मंजिल, टॉवर-ए, स्पेजएज, सैक्टर-47 दिनांक: 28.06.2024 सोडना रोड, ग्डगांव-122018। फोन: +91-9899027510

Utkarsh Small Finance Bank

Aapki Ummeed Ka Khaata

(A Scheduled Commercial Bank) उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक

सीआईएन: U65992UP2016PLC082804

(बैंक को सीआईएन के परिवर्तन के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज की अनुमित की प्रतीक्षा है) पंजीकृत कार्यालयः उत्कर्ष टॉवर, एनएच - 31 (एयरपोर्ट रोड), सेहमालपुर, काजी सराय, हरहुआ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, पिन - 221105।

दूरभाष. नंबर: +91-542-6605555 | ईमेल: shareholders@utkarsh.bank वेबसाइटः www.utkarsh.bank

एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनांस बैंक लिमिटेड (''यूएसएफबीएल'' अथवा 'बैंक') के सदस्यों की आठवीं (8वीं) वार्षिक आम सभा सोमवार, 22 जुलाई, 2024 को 2.00 बजे अप. (आईएसटी) में वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा आयोजित की जाएगी।

- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एसीए'') द्वारा जारी हाल के सर्क्युलर नं. 09/2023, तिथि 25 सितम्बर, 2023 तथा सेबी सर्क्युलर सं. SEBI/HO/CFD-POD-2/P/CIR/2023/ 167 तिथि 07 अक्टूबर, 2023 के साथ पठित एमसीए तथा समय-समय पर सेबी द्वारा जारी विभिन्न सर्क्युलर्स के अनुपालन में बैंक की आठवीं (8वीं) वार्षिक आम सभा (''एजीएम'') वीडिया कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'') अन्य ऑडियो -विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') सुविधा द्वारा सोमवार, 22 जुलाई, 2024 को 2.00 बजे अप. (आईएसटी) में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम आमंत्रण की सूचना में वर्णित
- व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा। सर्क्यलर्स के अनुपालन में बैंक ने एजीएम की सचना तथा एफवाई 23-24 के समेकित वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां ऐसे सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रेषित कर दी है। जिनके ईमेल आईडीज बैंक/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं।
- 3. एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा निष्पादित किया जाएगा।
- 4. रिमोट ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 19 जुलाई, 2024 को 9.00 बजे पूर्वा. आईएसटी में शुरू होगी तथा रविवार, 21 जुलाई, 2024 को 5.00 बजे अप. आईएसटी में बंद होगी। इस अवधि के दौरान कट-ऑफ तिथि अर्थात 15 जुलाई, 2024 को शेयर धारित करने वाले सदस्य इलेक्ट्रानिक तरीके से अपना मतदान कर सकते हैं। उक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनमित नहीं दी जाएगी/लेकिन, बैंक ने एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की व्यवस्था भी की है।
- 5. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्ट्र अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभ भोगी स्वामियों के रिजस्टर में दर्ज होगा, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही साथ आम सभा में ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे।
- 6. यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद बैंक का शेयर अर्जित करते हैं तथा कट–ऑफ तिथि को बैंक का सदस्य बनते हैं, वे evoting@nsdl.com अथवा shareholders@utkarsh.bank पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) में पहले से ही पंजीकृत हैं तो मतदान करने के लिए अपना वर्तमान लागिन आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते है।
- सभा में शामिल होने की सुविधा सभा से न्यूनतम 15 मिनट पूर्व तक खुली रखी जायेगी तथा सभा के बाद 15 मिनट की समाप्ति तक बंद नहीं की जायेगी।
- 8. रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर लेने के बाद भी सदस्य वार्षिक आम सभा में भाग ले सकते है लेकिन सभा में फिर से मतदान की अनुमित उन्हें नहीं
- 9. आठ वीं (8वीं) एजीएम की सूचना तथा एफवाई 23-24 का वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट www.utkarsh.bank, स्टॉक एक्सचैंज अर्थात् क्रमशः बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इडिंया लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाईट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
- 10. जिन सदस्यों को लॉगिन में कोई तकनीकी बाधा उत्पन्न हो, वे evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल की हेल्पडेस्क से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा 022-4886700 पर कॉल कर सकते हैं।

कृते, उत्कर्ष स्मॉल फाइनांस बैंक लिमिटेड

तिथि : 29 जून, 2024 स्थान : मुम्बई

सम्पत्ति का पता

खाता संख्या ४९६, खसरा १२७७ में से प्लॉट संख्या ३

का समस्त भाग, क्षेत्रफल 65.55 वर्ग गज यानी

54.82 वर्ग मीटर, मोहल्ला गढ़ी पिलखुआ, परगनाः

डासना, तहसीलः धौलाना, जिलाः हापुड्, उत्तर प्रदेश

- 254304 में स्थित है और इसकी सीमाएँ हैं: पूर्व:

विक्रेता का घर, पश्चिमः 15 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः

आवासीय घर का समस्त भाग, प्लॉट संख्या अ-116,

क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, यानी 83.61 वर्ग मीटर, खसरा

संख्या 771 में शामिल, उत्तरांचल विहार सहकारी

आवास समिति लिमिटेड, गांवः बेहटाहाजीपुर, परगनाः

लोनी, तहसील और जिलाः गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102 में स्थित है, और इसकी सीमा इस प्रकार है: पूर्वः प्लॉट संख्या ए-115, पश्चिमः प्लॉट संख्या ए-117, उत्तरः रास्ता 25 फीट चौड़ा, दक्षिणः सर्विस लेन

विक्रेता की जमीन, दक्षिणः इरफान का प्लॉट

IDFC FIRST

मुथिआह गणपथि कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सदस्यता सं.-5674 AXIS BANK अचल संपत्ति की बिक्री के

जनसता

ज्ञात भार (यदि कोई हो):

खुदरा ऋण एवं भुगतान समूह (स्थानीय कार्यालय/शाखा)ः जी-9, महिमा ट्रिनिटी मॉ ु 3एफ-24, स्वेज फार्म, ब्यू सांगानेर रोड, जयपुर। एक्सिस बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल, विवाप्लेक्स, एनपीसी-1, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया मुगलसन रोड, ऐरोली, नवी मुंबई -400708 पंजीकृत कार्यालयः "त्रिशूल", तीसरी मंजिल,समर्थे श्वर मंदिर लॉ गार्डन के सामने, लिए ई-नीलामी बिक्री

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी बिक्री

एतद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणी एवं गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी / चार्ज की गई है, जिसका भौतिक कब्जा सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है। जिसकी बिक्री ऋण संख्या PHR005706612914 में सूरज पंवार (आवेदक) और गजेद्र पंवार (सह—आवेदक) से देय 12.10.2023 तक रु.932517 / — बकाया के साथ भविष्य के ब्याज और लागतों की वसूली के लिए 06.08.2024 को "जैसा है जहां है", " जो है जैसा है" और "जो कुछ भी है" पर बेचा जाएगा। कृपया आवश्यक विवरण के लिए संलग्न नीलामी अनुसूची देखें:

1 1	S 12
आरक्षित मूल्य (रुपये में)	रु. ४,८०,००० / —(रुपये चार लाख अस्सी हजार मात्र)
धरोहर जमा राशि (रुपये में)ः	रु. 48,000 / —(रुपये अड़तालीस हजार मात्र)'एक्सिस बैंक लिमिटेड' के पक्ष में एवं जयपुर में देय डीडी / पीओ के माध्यम से ।
बोली वृद्धि राशिः	रु. 10,000 / — (केवल दस हजार रुपये)
ईएमडी के साथ बोलियां/निविदा जमा करने की अंतिम तिथि, समय और स्थानः	05.08.2024 तक, अधिकतम सायं 05:00 बजे तक, एक्सिस हाउस, जी—9, महिमा ट्रिनिटी मॉल,3एफ—24, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर, राजस्थान और कृपया श्री नवीन कुमार शर्मा को संबोधित करें।
सार्वजनिक ई-नीलामी हेतु दिनांक, समय और स्थान :	06.08.2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे। इसके वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ। ई—नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा आदि
सहित ई-नीलामी निविदा दस्तावेज उ	परोक्त विवरण के अनुसार सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

प्लॉट संख्या ७७, चक संख्या ली, खसरा संख्या १८४६ / ३९४, महादेव नगर, पाली ३०६४०१,जो निम्नानुसार परिबद्ध है :— पूर्व-प्लॉट संख्या 78, पश्चिम- प्लॉट संख्या 76 उत्तर- अन्य खसरा, दक्षिण-रोड,

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए,कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी https://www.axisbank.com/ auction-retail और बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स सी। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर दिए गए लिंक को देखें। नीलामी, बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से उनके वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।

किसी अन्य सहायता के लिए इच्छूक बोलीदाता श्री नवीन कुमार शर्मा, मोबाइल नं. 9351776625, बैंक के प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय समय के दौरान सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। दिनांक— 29.06.2024, स्थान—नोएडा हस्ता /- प्राधिकृत अधिकारी, कृते एक्सिस बैंक लिमिटेड

AXIS BANK अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

मॉल,३एफ-२४, स्वेन फार्म, न्यू सांगानेर रोड, नयपुर। एक्सिस बैंन लिमिटेड, तीसरी मंजिल, गिगाप्लेम्स, एनपीसी-१, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, मुगलसन रोड, ऐरोली, नवी मुंबई -400708 पंजीकृत कार्यालयः ''त्रिशूल", तीसरी मंजिल, समर्थेश्वर मंदिर लॉ गार्डन के सामने,एलिसब्रिज अहमदाबाद-380006 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का

खुदरा ऋण एवं भुगतान समूह (स्थानीय कार्यालय/शाखा)ः जी-9, महिमा ट्रिनिर्ट

लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। रतद्दवारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणी एवं गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी / चार्ज की गई है, जिसका भौतिक कब्जा सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है। जिसकी बिक्री ऋण संख्या PHR005707220948 में वीरेंद्र (आवेदक) और पिंदू सिंह, (सह-आवेदक) से देय 24.08.2023 तक रु.1017219/- बकाया के साथ भविष्य के ब्याज और लागतों की वसूली के लिए 06.08.2024 को **"जैसा है जहां है", " जो है जैसा है" और "जो कुछ भी है"** पर बेचा जाएगा। कृपया आवश्यक विवरण के लिए संलान नीलामी अनुसूची देखें

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के

वयरण के लिए रालाना नालाना जनुराूवा	ч G.	127		
ज्ञात भार (यदि कोई हो):		नहीं		
आरक्षित मूल्य (रुपये में)	₹. 6,00,	6,00,000 / —(केवल छह लाख रुपये)		
धरोहर जमा राशि (रुपये में)ः		.60,000/— (केवल साट हजार रुपये) 'एक्सिस बैंक लिमिटेड' के पक्ष में वं जयपुर में देय डीडी/पीओ के माध्यम से ।		
बोली वृद्धि राशिः	रु. 10,000 / — (केवल दस हजार रुपये)			
ईएमडी के साथ बोलियां / निविदा जमा करने की अंतिम तिथि, समय और स्थानः	महिमा नि	124 तक, अधिकतम सायं 05:00 बजे तक, एक्सिस हाउस, जी—9, ट्रेनिटी मॉल,3एफ—24, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर, न और कृपया श्री नवीन कुमार शर्मा को संबोधित करें।		
सार्वजनिक ई—नीलामी हेतु दिनांक, समय और स्थान : विस्तार के साथ। ई—नीलामी बोली प्रपत्र,	https://	124 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे। इसके वेब पोर्टल www.bankeauctions.com पर प्रत्येक 5 मिनट के असीमित ादि सहित ई—नीलामी निविदा दस्तावेज उपरोक्त विवरण के अनुसार		

अनुसूची-संपत्ति का विवरणः प्लॉट नं. 41, खसरा नं. 1846/394, महादेव नगर, पाली, मापक्षेत्र– 1000 वर्ग फीट, निम्नान्सार गरिबद्ध है :–पूर्व–प्लॉट नं. 40 पश्चिम–प्लॉट नं. 42 उत्तर–रोड दक्षिण–प्लॉट नं. 4, बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए,कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी https://www.axisbank.com/auction-retail और बैंक

के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर दिए गए लिंक को देखें। नीलामी, बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से उनके वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। किसी अन्य सहायता के लिए इच्छुक बोलीदाता श्री नवीन कुमार शर्मा, मोबाइल नं. 9351776625, बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से कार्यालय समय के दौरान सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

दिनांक -29.06.2024, स्थान-नोएडा हस्ता /- प्राधिकृत अधिकारी, कृते एक्सिस बैंक लिमिटेड



शिवालिक स्मॉल फाइनांस बैंक लि. पंजीकृत कार्यालय: 501, सैल्कॉम ऑरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, नई दिल्ली-110025

CIN: U65900DL2020PLC366027 कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) (नियम 8(1)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के

अंतर्गत शिवालिक स्मॉल फाइनांस बैंक अर्थात् शिवालिक मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 10.4.2024 ऋण खाता सं. 101541008095 के लिये जारी कर 1. श्रीमती गायत्री देवी, पत्नी स्व. राजपाल सिंह (ऋणधारक/मार्टगैजर) निवासीः एच. नं. 31, खसरा नं. 3041, मानसरोवर कॉलोनी, ग्राम साहपुर बमेथा, गाजियाबाद, उ.प्र. 201002, 2) श्री निर्मल शर्मा, पुत्र श्री कालूराम शर्मा (गारंटर), एच. नं. 13, राहुल विहार, दौलरपुरा, थाना सिहानी गेट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201002 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 1,73,000/- (रु. एक लाख तिहत्तर हजार मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 25 जून, 2024 को अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 1,73,000/- (रु. एक लाख तिहत्तर हजार मात्र) तथा उस पर ब्याज की राशि के लिये शिवालिक स्मॉल फाइनांस बैंक लि. के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल परिसम्पत्तियों का विवरण सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज: आवासीय प्लॉट, एरिया माप 62.22 वर्ग यार्ड्स अर्थात् 52.023 वर्ग

मी. जो खसरा नं. 3041, प्लॉट नं. 31, ग्राम साहपुर बमेथा, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है जो श्रीमती गायत्री देवी, पत्नी स्व. राजपाल सिंह के नाम में बही नं. 1, जिल्द नं. 11240, पेज नं. 329-352, क्रमांक 6449 तिथि 10.07.2013 के राजस्व अभिलेखों में पंजीकृत है।


पश्चिम 25	फीट रोड पूर्व	3	अन्य प्लॉट
तिथि: 25.6.2024	6,		

स्थानः गाजियाबाद शिवालिक स्मॉल फाइनांस बैंक लि

IDFC FIRST Bank

आईडाएफसी फस्टे बैंक लिमिटेड

सीआईएन :L65110TN2014PLC097792 पंजीकृत कार्यालय : के आरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड,चेटपेत,चेन्नई-600031.



फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व के कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, (आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 3] के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदार/सह-कर्जदारों तथा जमानतियों से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर मांग सूचना की तिथि से भुगतान/वसूली तक भावी ब्याज एवं अन्य प्रभारों सहित मांग सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करने को कहते हुए एक मांग सूचना जारी की थी।

ऋण खाता	कर्जदार⁄सह-	बंधक सम्पत्ति	मांग	कब्जे करने की	
संख्या	कर्जदार⁄जमानितयों के नाम	का विवरण	तिथि	बकाया राशि (रु.)	तिथि तथा प्रकार
26174860	1. रिकू कुमार 2. देवेन्द्री रोहताश	आवासीय प्लॉट संख्या 3 का समस्त भाग, 30 वर्ग गज माप, खसरा संख्या 212/1 मिन, खैराती नगर, गांव- अबरपुर बहरामपुर, परगना लोनी, तहसील और जिला- गाजियाबाद (यूपी) में स्थित है, और इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: प्लॉट दीगर, पश्चिमः रास्ता 13 फीट, उत्तरः प्लॉट दीगर, दक्षिणः प्लॉट दीगर	16.07.2022	₹. 8,91,863.57/−	25-06-2024 भौतिक कब्जा
13296810, 12955830	1. मुनेश दुर्गा कुमार प्रसाद 2. उषा झादिया	फ्लैट संख्या यूजीएफ-06 का समस्त भाग, ऊपरी भूतल बिना छत के अधिकार के, प्लॉट संख्या 13, खाता संख्या 1812, खसरा संख्या 73 पर निर्मित, माप 450 वर्ग फीट, यानि 41.805 वर्ग मीटर, बौद्ध विहार कॉलोनी, गांव-अकबरपुर बहरामपुर, परगना-लोनी, तहसील और जिला - गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश और, सीमाः पूर्वः प्लॉट संख्या 14 पश्चिम, पूर्व में श्री सुनील यादव की संपत्ति, वर्तमान में श्री खुर्शीद अहमद असमानी, उत्तरः रास्ता 25 फीट चौड़ा दक्षिणः रास्ता 10 फीट चौड़ा	24.06.2022	रु. 11,19,616.95/-	24-06-2024 भौतिक कब्जा

विशेष रूप से कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानतियों एवं जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार मांग सूचना की तिथि से भुगतान/वसूली तक भावी ब्याज एवं अन्य प्रभारों सहित मांग सूचना में उल्लिखित राशि के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व

अधिकृत प्राधिकारी


www.readwhere.com

अधिकृत प्राधिकारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड

के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से)

8 फीट चौड़ी

(पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) दूरभाष : +91 44 4564 4000 । फैक्स : +91 44 4564 4022.



जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत आईडीएफसी

कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानितयों द्वारा राशि के पुनर्भूगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानितयों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

ऋण खाता	ण खाता कर्जदार∕सह− मांग सूचन		सूचना	ना कब्जे करने की	
संख्या	कर्जदार⁄जमानतियों के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	तिथि	बकाया राशि (रु.)	तिथि तथा प्रकार
26174860	1. रिंकू कुमार 2. देवेन्द्री रोहताश	आवासीय प्लॉट संख्या 3 का समस्त भाग, 30 वर्ग गज माप, खसरा संख्या 212/1 मिन, खैराती नगर, गांव- अबरपुर बहरामपुर, परगना लोनी, तहसील और जिला- गाजियाबाद (यूपी) में स्थित है, और इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: प्लॉट दीगर, पश्चिमः रास्ता 13 फीट, उत्तरः प्लॉट दीगर, दक्षिणः प्लॉट दीगर	16.07.2022	रु. 8,91,863.57/−	25-06-2024 भौतिक कब्जा
13296810, 12955830	1. मुनेश दुर्गा कुमार प्रसाद 2. उषा झादिया	फ्लैट संख्या यूजीएफ-06 का समस्त भाग, ऊपरी भूतल बिना छत के अधिकार के, प्लॉट संख्या 13, खाता संख्या 1812, खसरा संख्या 73 पर निर्मित, माप 450 वर्ग फीट, यानि 41.805 वर्ग मीटर, बौद्ध विहार कॉलोनी, गांव-अकबरपुर बहरामपुर, परगना-लोनी, तहसील और जिला - गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश और, सीमाः पूर्वः प्लॉट संख्या 14 पश्चिम, पूर्व में श्री सुनील यादव की संपत्ति, वर्तमान में श्री खुर्शीद अहमद असमानी, उत्तरः रास्ता 25 फीट चौड़ा दक्षिणः रास्ता 10 फीट चौड़ा	24.06.2022	₹. 11,19,616.95/-	24-06-2024 भौतिक कब्जा

के कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) के प्रभार का विषय होगा।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड दिनांक : 24 एवं 25 जून, 2024 स्थान : गाजियाबाद (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)